



कोविड-19 महामारी पर रिपोर्टिंग


पत्रकारों के लिए ट्विटर टूलकिट

यह टूलकिट उन पत्रकारों के लिए है, जो भारत में सामान्य खबरों या स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकार बीट्स को कवर करते हैं।

नोट

बजट सम्बंधित कहानी
के लिए चार कदम |

हमारे बारे में: एकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव, सेंटर फार पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली में स्थित अनुसंधान समूह है जो सरकार के वित्त आवंटन, सार्वजनिक खर्च, और मुख्य सामाजिक योजनाओं के परिणाम और प्रभाव पर पिछले 10 से अधिक वर्षों से शोध कर रहा है |



**लोकप्रिय और विशिष्ट
हैशटैग
की सहायता से
जानकारी खोजें**

ट्विटर पर हैशटैग की मदद से एकाउंट्स खोजना आसान हो जाता है। कोविड-19 के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किये जाने वाले हैशटैग की सूची तैयार करें, और उन की भी जो आपकी रुचि से जुड़े हों। आप इनसे शुरुआत कर सकते हैं:

- #IndiaFightsCorona
- #PradhanMantriGaribKalyanPackage
- #PMKisanSammanNidhi
- #MNREGA



**कहानियों के विचार
और विश्वसनीय सूचना
के लिए मंत्रालय और
विभागों को फॉलो करें**

भारत में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रमुख मंत्रालय और केंद्र स्तर विभाग अपने ट्विटर एकाउंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी से जुड़े महत्वपूर्ण ट्विटर हैंडल इस प्रकार से हैं:

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (@MoHFW-INDIA)
- वित्त मंत्रालय कार्यालय (@FinMinIndia)
- मिनिस्ट्री आफ फाईनेन्स (@FinMinIndia)
- डिपार्टमेंट आफ फाइनेंसियल सर्विस (@DFS-India)
- प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (@PIB-India)

ट्विटर पर मौजूद 'लिस्ट' प्रक्रिया का उपयोग कर, आप अपने ट्विटर एकाउंट के माध्यम से इनके ट्विटर एक जगह देख सकते हैं।



ट्रेंड्स को समझें

ट्विटर फीड में जवाबों की संख्या बहुत ज्यादा लगती है, विशेष रूप से उनके ट्वीट पर जो प्रभावशाली हों या सरकारी मंत्री या अधिकारी वर्ग के हों। लेकिन ट्विटर का छोटे संदेशों का रूप मूल्यवान है। उदाहरण के लिए, यदि आप कहानी लिख रहे हैं कि योजनाओं के क्रियान्वन में जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ता कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो संभवतः आप उनकी राय ट्विटर में पायेंगे। इसी जानकारी के आधार पर आप प्रश्न सोच सकते हैं या अपने स्थानीय ताल्लुकात के माध्यम से ऐसे लोगो के साथ इंटरव्यू की व्यवस्था कर सकते हैं।



विशेषज्ञों को खोजें

विद्वत्पूर्ण कार्य का उपयोग करें, जैसे कि, सार्वजनिक प्रणाली किस प्रकार से चल रही है। इस पर एकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव और सेंटर फार पॉलिसी रिसर्च (@CPR-India) ठोस तथ्य और विश्लेषण उपलब्ध करवाते हैं। इनका ट्विटर हैंडल नियमित रूप से अपडेट होता है, और ये आसानी से समझ में आने वाले तथ्य और डाटा साझा करते हैं जिन्हें आप अपनी रिपोर्टिंग में जोड़ सकते हैं।